

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता

विषय → यातायात जागरूकता

नाम →

कक्षा →

अनुक्रमांक -

4

शहरों की सड़के →

1. शहरों की सड़के पक्की एवं चौड़ी होती हैं वहाँ पर कतार बनी होती है।
2. शहरों की सड़के पर तीन बत्ती लगी होती हैं। जब लाल बत्ती का संकेत हो तो हमें रुक जाना चाहिए। जब पीली बत्ती का संकेत हो तो तैयार रहना चाहिए और यदि हरी बत्ती का संकेत हो तो चलना या आगे बढ़ना चाहिए।
3. जब ट्रेन आती है तो लाल बत्ती जल जाती है, तब सारे लोग वही रुक जाते हैं।


यातायात के नियम

1. हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए तथा दूसरों को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक करना चाहिए।
2. हमें यातायात के संकेतों का पालन करना चाहिए।
3. हमें ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन / हेडफोन पर बात नहीं करना चाहिए।
4. हमें ड्राइविंग करते समय सोना नहीं चाहिए यदि नींद आ रही हो तो वाहन कदापि न चलाएँ।
5. हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए यदि हमें कोई भी दुर्घटना होती है तो वह 70% चोट को कम करता है। दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। अगर हमें थोड़ी ही दूर क्यों न जाना पड़े तो हेलमेट लगाकर

- 6- चार पहिया गाड़ी चलाने समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए।
- 7- हमें मोटर साइकिल पर तीन लोगो से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए।
- 8- लाइसेंस के बिना वाहन नहीं चलाना चाहिए। ऐसा करना कानूनन अपराध है।
- 9- जो लोग भीड़ लगाकर चलते हैं, हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए। हमें आगे पीछे करके चलना चाहिए।
- 10- हमें अपने बाएँ तरफ से हमेशा चलना चाहिए।
- 11- हमें दूसरो को बताना चाहिए कि वह अंधो को सड़क पार करवाये और दूसरो की मदद करें।
- 12- यातायात के नियमों। एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का साधन हैं। जैसे- सड़क चिन्ह सड़क परिवहन आदि।
- 13- हमें हमेशा अपने नियम का पालन करना चाहिए।
- 14- हमें जो सड़को, गलियों पर जो भीड़ इकट्ठा करते हैं उन्हें बताना चाहिए कि वो लोग ऐसा न करें।
- 15- यदि कोई गाड़ी मोटरसाइकिल जा रही हो तो हमें तरफ हो जाना चाहिए। नहीं तो हमें चौक लग सकती है।
- 16- हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए।
- होटे बच्चों को रोड पर नहीं जाने देना चाहिए।
- अगर वो लोग जाते हैं तो मना करना चाहिए नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। *

साइक दुर्घटना

1. बाहरी या गातों में जो दुर्घटनाएँ होती हैं, उसके बहुत लोगों को चोट आती है और बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। यदि हम अपने ही आइड से चले तो दुर्घटनाएँ नहीं होंगी।
2. हमें साइक को धीरे चलाना चाहिए कि यदि हम तेजी से चलाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है और आगे मोड़ आ गया तो उसी में लड़ जाएंगे और हादसा हो जाता है।
3. हमें दूसरों को जागृत करना चाहिए कि वह लोग हमेशा यातायात के नियमों करें।
4. हमें वाहन चलाने समय सोना नहीं चाहिए। नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है यदि दुर्घटना हो गई तो हमें सम्बुलेंश सेवा के लिए 108 नम्बर पर डायल करना चाहिए।
5. अगर किसी दुर्घटना में किसी को भी चोट आई तो उसे उपचार करना चाहिए, और अस्पताल भेजना चाहिए।
6. वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए।
7. हमें साइकिल पर दो लोगों से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए।
8. अगर आप कहीं जा रहे हैं तो दोहे बच्चों को पीछे नहीं बैठाना चाहिए।
9. हमें उस पर ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे कि चैन में कैसे हमें जो रोड पर हाथ पकड़े चलते हैं, उन्हें मना करना चाहिए, कि ऐसे न चले नहीं तो हादसा हो जायेगा।



सड़क यातायात जागरूकता के लिए दो लाइन की पंक्ति —
सड़क सुरक्षा को अपनाये
आओ मिलकर जागरूकता फैलाये।

